

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग —खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 10] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 7, 1970/पौष 17, 1891

No. 10] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 7, 1970/PAUSA 17, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

[Border Security (II) Section]

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January 1970

S.O. 141.—In pursuance of the provisions of clause (a) of sub-section (1) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Rajasthan for a period of three months with effect from 7th January, 1970, as active duty.

[File No. 9/28/69-BS.II.]

B. VENKATARAMAN, Jt. Secy.

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100